

मुख्यमंत्री ने पर्यटन वभाग के वभिन्न प्रस्तावों का कथि अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

28 अगस्त, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिये जाने की बजट घोषणा की क्रियान्वति में पर्यटन वभाग से प्राप्त वभिन्न प्रस्तावों का प्रशासनिक अनुमोदन कथि। इस अनुमोदन से पर्यटन इकाइयों का कार्य सुगम होगा।

प्रमुख बदि

- मुख्यमंत्री द्वारा दी गई स्वीकृति से पूर्व में स्वीकृत दस्तावेजों के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों के आधार पर भी पर्यटन इकाइयों के पक्ष में एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी कथि जा सकेगा।
- इसके तहत आरटीडीसी तथा आरएसएचसी की इकाइयों के कार्यकारी नदिशक की स्वघोषणा, राज्य सरकार के अधीन राजकीय संग्रहालय के लयि नदिशक पुरातत्त्व एवं संग्रहालय वभाग की स्वघोषणा कथि जाना प्रस्तावति है।
- इनके अलावा केंद्र सरकार के अधीन राजकीय संग्रहालय से संबंधति मंत्रालय के राज्य में पदस्थापति वरषिष्ठतम अधिकारी की स्वघोषणा, रीको औद्योगिकि क्षेत्रों में होटल परयोजनार्थ आवंटति भूखंडों के संबंध में भू-आवंटन आदेश एवं ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व वभाग/ज़िला कलक्टर द्वारा भू-संपरविरतन आदेश के आधार पर भी एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी कथि जाना प्रस्तावति है।
- मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार सभी इकाइयों से बज़िनेस रजिस्ट्रेशन नंबर (BRN) लयि जाना अनविर्य कथि जाएगा। वही, 10 या अधिक कमरों के होटल, बजट होटल एवं मोटल को भी पर्यटन इकाई के रूप में सम्मलिति कथि जाएगा।
- साथ ही, वति वभाग द्वारा फरवरी, 2022 में जारी अधिसूचना, जसिमें पर्यटन परयोजनार्थ संपरविरतति या उपयोग में ली जा रही भूमयिों की बाज़ार दरों के संबंध में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय या पर्यटन वभाग से अनुमोदन का प्रावधान कथि गया है।
- इसके अलावा, नया स्पष्टीकरण प्रतस्थापति कर RIPS-2022 के तहत ईसी का प्रावधान कथि जाएगा।